

CLASS 6
SUBJECT - 2ND LANGUAGE
HINDI CHAPTER - 5
बकरी दो गांव खा गई
WORKSHEET

सार
:-

- इस कहानी में एक बकरी किसान का वह पत्ता खा गई, जिस पर राजा अकबर ने इनाम में दो गांव देने की बात लिखी थी।
- एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता - चिल्लाता घूम रहा था कि बकरी दो गांव खा गई।
- उसे देखने पर बादशाह अकबर पहचान गए कि जब एक बार वेश बदलकर वे किसी गांव के खेत में गए थे तब इसी आदमी ने उन्हें गन्ने का रस पिलाया था।
- एक गन्ने से काफी रस निकला देख कर राजा को हैरानी हुई थी, जिसे इस आदमी ने अपने बादशाह की नीयत का कमाल बताया था।
- उनके पूछने पर पता चला था कि लगान भी सिर्फ पच्चीस पैसे देने पड़ते थे।
- राजा ने मन ही मन सोचा कि आगरा पहुंचकर लगान बढ़ा देंगे।
- जाने से पहले राजा ने दोबारा रस पिलाने को कहा। परंतु इस बार तीन-चार गन्ने का रस निकालने पर भी लौटा न भरा।
- राजा के पूछने पर उसने बताया कि लगता है कि राजा की नीयत बिगड़ गई है, इसीलिए ज्यादा रस नहीं निकला।
- राजा हैरान हो गए कि इंसान की नीयत का पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है। जहां नीयत अच्छी होती है उस घर में हमेशा बरकत रहती है।
- फिर राजा ने उसे बताया कि वह कौन थे और उसका लगान माफ कर दिया।
- एक बार फिर से किसान एक ही गन्ने से लोटा भर कर रस ले आया।
- बादशाह ने खुश होकर पीपल के एक पत्ते पर इनाम में किसान को दो गांव लिखकर दे दिए।
- राजा के जाने के बाद बकरी आकर वह पत्ता खा गई।
- किसान बहुत परेशान था कि अब राजा उसे दो गांव नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने उसे पहचान लिया था और फिर से दो गांव देने का हुक्म लिख दिया।

- इस पाठ से हम सीखते हैं कि नीयत की बरकत से बढ़कर कुछ नहीं। एक मामूली किसान ने बादशाह अकबर को अपने भोलेपन में इंसानियत का पाठ पढ़ाया।

Q1. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए।

- a)नीयत
- b)लगान
- c)बरकत
- d)संशयपूर्वक
- e)शासक
- f)हुकम

Q2. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए।

- a)हैरान
- b)लालच
- c)इंतजार
- d)सावधान
- e)हुकम
- f)नीयत

Q3. एक शब्द में उत्तर लिखिए।

- a)किसान किस शहर की सड़कों पर घूम रहा था?
- b)किसान कितना लगान देता था?
- c)पत्ता कौन खा गई?
- d)बादशाह अकबर किसान की किस बात पर हंसे?
- e)बादशाह ने किस पत्ते पर दो गांव लिखे?
- f) किसान ने बादशाह को क्या पाठ पढ़ाया?

EXERCISES FROM THE BACK OF THE LESSON

PAGE NO.41

Q1.लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न

(i, ii, iii, iv)

Q2.दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(i, ii)

PAGE NO.42 (DO IN THE TEXT BOOK)

Q3.दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने (✓) लगाएँ

(i, ii, iii, iv)

Q4.सही (✓) अथवा (X) गलत का चिन्ह लगाएँ

(i, ii, iii, iv)

Q6.दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर के सामने (✓) लगाएँ

(i, ii, iii, iv)

PAGE NO.44

Q3.दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द के सामने (सही का) चिन्ह लगाएँ

(i, ii, iii, iv, v)

Q4.दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें

(i, ii, iii, iv, v)